



स मा चार

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश समाचार

विधान सभा की नाम-निर्दिष्ट समितियों का गठन

भोपाल : 21 अप्रैल, 2017

विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा वर्ष 2017-2018 की अवधि के लिए कार्य मंत्रणा समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, याचिका समिति तथा प्रत्यायुक्त विधान समिति का गठन करते हुए इन समितियों हेतु सभापतियों एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है।

कार्यमंत्रणा समिति में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री लालसिंह आर्य, सर्वश्री जगदीश देवड़ा, बाला बच्चन, रामनिवास रावत तथा डॉ. गोविन्द सिंह सदस्य नामांकित किए गए हैं। विधान सभा अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की सभापति सुश्री मीना सिंह मांडवे होंगी। इस समिति में श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर, सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, श्री रामसिंह यादव, हजारीलाल दांगी एवं डॉ. रामकिशोर दोगने सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

श्री शंकर लाल तिवारी याचिका समिति के सभापति बनाए गए हैं। सर्वश्री इंदर सिंह परमार, उमंग सिंघार, दिलीप सिंह शेखावत, निशंक कुमार जैन, बलवीर सिंह डण्डौतिया, मुकेश पण्डया, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, मुरलीधर पाटीदार, मेहरबान सिंह रावत, लाखन सिंह यादव इस समिति में सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए गए हैं।

प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति श्री जयसिंह मरावी होंगे। इस समिति में विधायकगण सर्वश्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, माधो सिंह डावर, सुशील कुमार तिवारी, रामलाल रौतेल, भारत सिंह कुशवाह, कल्याण सिंह ठाकुर, पंडित सिंह धुर्वे, मुकेश नायक, शैलेन्द्र पटेल तथा डॉ. रामकिशोर दोगने सदस्य के रूप में नामांकित किए गए हैं।

वि.स./ज.स./2017

(मुकेश मिश्रा)
अवर सचिव